



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 / 4 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 जुलाई, 2022

संख्या टी0सी0पी0-एफ(5)-1/2009-I.—कसौली योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को संशोधित किए जाने के प्रारूप को अधिसूचना संख्या हिम/टी.पी./पी.जे.टी./ए.जैड.आर.-कसौली/2014/वॉल्यूम-1/5101-5126, तारीख 10-11-2021 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में

तारीख 12-11-2021 को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षानुसार तद्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग को प्राप्त नहीं हुआ और उक्त विकास योजना में प्रारूप संशोधनों को अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कसौली योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना में, बिना किसी उपान्तरण के, निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित करते हैं, अर्थात्:-

चैप्टर-17 का संशोधन

Development Plan for Kasauli Planning Area के चैप्टर-17 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्:-

1. Development Plan for Kasauli Planning Area के चैप्टर-17 में Regulation 17.1.6.24 (Building Regulations) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“The roof shall be painted with post office red or forest green or natural roofing material such as slates. Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.75 Metres at centre shall be permissible. The Dormer at suitable distance on either side of the roof shall be permissible subject to the condition that the ridge of Dormer shall be below the ridge line of main roof”.

उपर्युक्त संशोधन पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षानुसार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।

एतद्वारा नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि पुनरीक्षित/संशोधित विकास योजना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक नं० 32-ए, एस० डी० ए० कम्प्लैक्स, कसुम्पट्टी, शिमला-171009.
2. नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश
3. सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, कसौली, हिमाचल प्रदेश

उक्त संशोधित विकास योजना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवर्तन में आएगी।

आदेश द्वारा,
देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this department Notification No. TCP-F(5)-1/2009-I, dated 25-07-2022 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2022

No. TCP-F(5)-1/2009-I.—WHEREAS, the draft amendment in the Development Plan for **Kasauli Planning Area**, was notified *vide* Notification No. HIM/TP/PJT/AZR-Kasauli /2014/ Vol-I/5101-5126 dated 10-11-2021, and published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 12th November, 2021 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of Section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977);

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) was received by the Director, TCP within the stipulated period and the draft amendments in the said Development Plan have been submitted to the Government for approval;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 20 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to approve the following amendments in the Development Plan for **Kasauli Planning Area**, without modifications, namely:—

AMENDMENTS IN CHAPTER-17

In Chapter-17 of the Development Plan for **Kasauli Planning Area**, the following amendment is carried out, namely:—

1. In Chapter-17 of the Development Plan for Kasauli Planning Area, for Regulation 17.1.6.24 (**Building Regulations**), the following shall be substituted namely:—

“The roof shall be painted with post office red or forest green or natural roofing material such as slates. Height of sloping roof zero at eaves and maximum 2.75 Metres at centre shall be permissible. The Dormer at suitable distance on either side of the roof shall be permissible subject to the condition that the ridge of Dormer shall be below the ridge line of main roof”.

The above amendments are hereby published in the official Gazette, (e-Gazette), Himachal Pradesh as required under sub-section (4) of Section 20 of the Act *ibid*. A Notice is hereby given that a copy of revised/amended Development Plan is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director, Town and Country Planning Department, H.P., Shimla
2. Town & Country Planner, Divisional Town Planning Office, Solan
3. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning office, Kasauli

The said amended Development Plan shall come into operation from the date of publication in the official Gazette, Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT**CORRIGENDUM***Shimla-2, the 14th July, 2022*

No. HFW-B(B)2-9-2021-VOL-I-Loose.—In continuation to this Department notification dated 02-07-2022 *vide* which the Government has constituted a Screening Committee to examine the eligibility of DNB as well as PG Medical Officers (Specialist) of the State for appointment/promotion to the faculty post in the Government Medical/Dental Colleges/institutions of the State, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to delete Jt./Addl. Director, AIMSS Chamiana, Member Secretary mentioned at Sl. No. 4 in the said Committee, with immediate effect, in the public interest.

By order,
SUBHASISH PANDA, IAS,
Pr. Secretary (H&FW) .

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 21st July, 2022*

No. HFW-B(B)15-3/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following faculty member/ doctor shall retire from Government service on attaining the age of superannuation from the date shown against his name:—

Sl. No.	Name of faculty members with details	DOB	Date of retirement
1.	Dr. Mukand Lal, Professor & Head, Department of Orthopaedics, IGMCH Shimla.	25-08-1960	31-08-2022

By order,
SUBHASISH PANDA, IAS,
Pr. Secretary (H&FW).

**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL JAWALAMUKHI,
DISTRICT KANGRA (H.P.)**

Municipal Council Jawalamukhi (Property Taxation) BYE-LAWS, 2022*Dated 17th June 2022*

No. MCD/2022/572-73.—The following bye-laws made by Municipal Council Jawalamukhi, for regulating the property taxation in exercise of the powers conferred by Section 202 and Section 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994 (Act, No. 13 of 1994) having

been confirmed by State enforcement, as required under section 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 are hereby published for the general information.

Whereas, the objections and suggestions received within stipulated period have been considered and decided by Municipal Council Jawalamukhi.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (A) of Section 217 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994), the Municipal Council Jawalamukhi (Property Taxation) BYE-LAWS, 2022 are hereby notified and published in e-Rajpatra H.P. for information of general public as follows:—

1. Short title and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called the Municipal Council Jawalamukhi, Distt. Kangra H.P. (Property Taxation) Bye-laws, 2022

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of publication of its notification in the Rajpatra of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these bye-laws unless the context otherwise require,

- (i) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with its amendments carried out *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2016 and *vide* H.P. Municipal (Amendment) Act, 2020.
- (ii) “Appellate Authority” means an authority prescribed under section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iii) “Assessment List” means the list of all units of the lands and buildings assessable to property tax under the provisions of H.P. Municipal Act, 1994.
- (iv) “Assessment year” means the year commencing from the first day of April to 31st of March of succeeding year.
- (v) “Bye-Laws” means the Municipality (Property Taxation) bye-laws, 2021 made under the Act as notified in the official gazette.
- (vi) “Municipality” means as defined in Section 2 (24) of the Act
- (vii) “Section” means a Sections of the Act
- (viii) ‘Ratable Value’ as defined in Section 2 clause (33-a) of the Act and procedure prescribed under these Bye-Laws.
- (ix) “Unit” means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and build up portion of the building. This will not include setbacks area of building, agricultural lands and land in notified green belt as notified under the interim development plan of Jawalamukhi area.
- (x) “Unit area” means area of a unit in square meters

- (xi) “Unit area tax” means property tax on unit(s) of lands & buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rateable value of unit(s) of lands & buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Executive Officer shall keep a book to be called the “Assessment List” in which the following shall be entered in Form-A appended to these bye-laws:—

- (a) A list of all units of the lands and buildings located within the jurisdiction of Municipality Jawalamukhi, distinguishing each either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof.
- (b) The rateable value of each unit of the lands and buildings
- (c) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or building.
- (d) If any such unit of a land or a building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and
- (e) Other details; if any, as the Executive Officer may from time to time think, fit

Explanation.—(i) For the purpose of clause (b) the rateable value of the unit(s) of the land will be the rate able value of the unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rate able value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as “land” till the completion plan of building is sanctioned by Municipality Jawalamukhi or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as “land”.

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the form-A hereto. The Executive Officer may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Performa of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as “the holder” of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—If assessment list has been completed, the Executive Officer shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such

person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of Objections.—(1) The Executive Officer shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of Section 74 and sub-section (2) of Section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The rateable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the rateable value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Executive Officer may from time to time think, fit;

8. Amendment of Assessment list under the provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendments.—(i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of sub-sections (1) & (3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into and investigated by the Committee constituted in this behalf under sub-section 1 of 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that payment of property tax on the basis of the assessment list, as existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Head Office of the Municipality or at such other place(s) and time as may be specified by the Executive Officer as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft drawn in favour of the Executive Officer Municipal Council Jawalamukhi payable at or through RTGS in the Bank

Account of Municipal Council Jawalamukhi declared for the said purpose by the Executive Officer, as the case may be.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on form-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the municipal limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, service of the bill shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Executive Officer or by the officer/official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the ratable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30th April or in two half yearly installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection registers.—(i) A register of demand & collection of property tax in form-F appended to these bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Executive Officer, as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any the Executive Officer, as the case may be think fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Executive Officer, as the case may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property.—For the purpose of Sections 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994:—

- (i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;
- (ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended;

14. Remission/Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Executive Officer, as the case may be every year.—When a vacancy continues from one year into the subsequent year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Executive Officer, as the case may be on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Executive Officer within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Municipal Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Municipality staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Executive Officer, as the case may be refuse to treat such unit of building or tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Executive Officer, as the case may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Executive Officer, as the case may be, from time to time.

17. Notice on transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property require to be given under section 83 shall be either in Form-“C” or Form-“D” annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid up to date.—No such notice as contained in Bye-Laws 17 shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filing of return by owner(s)/ occupier(s).—The Executive Officer, as the case may be require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in Form-“E” appended to these bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of owner or occupier knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non- submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his knowledge or belief, shall in addition to any penalty under Section 82 of the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Executive Officer, as the case may be in respect of such unit of the lands or building of which he is the owner or occupier.

21. Inspection of Tax Record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land/ building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Executive Officer, as the case may be or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location Factor, (F1) Characteristic and its value.—For the purpose of clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, the location Factor, characteristic and its values shall be as under:—

(i) **Tentative Zoning of Jawalamukhi Town proposed as follows:—**

A Z : one may include the following area (Ward No. 1,6,7)

B Z : one may include following area (Ward No. 2,3,4,5)

- (ii) **Number of Zones.**—The entire municipal area is proposed to be divided into two zones *i.e.* zone –A, zone –B, Factors and proposed value of each factor. There are five factors which are relevant for determination of rate able value of lands & buildings. These factors and proposed value of each factors per sq. meter shall be as under:—

- (1) Location factor(F-1):

Location (Zone) (F1) No.	Value per sq. mtr.
A =	--3-----
B =	--2-----

23. Structural factor/(F2) characteristics and its value.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, building shall be classified as pucca, semi-pucca and kucha in the following manner.—

- (i) For Pucca-building, value per sq. mtr. = 3
- (ii) For semi-pucca building, value per sq. mtr. = 2.5
- (iii) For kucha building, value per sq. mtr. =2

24. Age factor (F3) and Age-wise grouping and value of the buildings.—For the clause (33-a) (c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group:—

Group	Building/ property	Factor value
A	Before 1947	2
B	Above 1947 to 1980	2.5
C	Above 1981 to 2000	3
D	Above 2001 to 2020	4
E	2021 and beyond	5

25. Occupancy factor (F4) /characteristics and its value.—The occupancy factor and its value shall be as under for the purpose of clause (c) *ibid*:—

Value for residential / non-residential occupancy: (F4)

(a) Value for self residential =2	(b) Value for Let-out residential =2.5
Commercial self =4	Commercial Let-out =4

26. Use factor/ (F5) characteristic and its value.—For the purpose of clause (33-a) of Section 2 of the Act, the value of use factor/characteristic of the unit(s) of the lands & buildings for the purpose of clause (33-a) *ibid* shall be as under:—

(i) Value per sq. mtr. for non-residential occupancy: (F5)

A	B	C	D	E
Hotels above built-up area of 1000 Sq. mtr., MNC Show Rooms and Restaurant =6	Hotel having built-up area between 500 to 1000 Sq. mtr. and Show Room above 1000 Sq. Mtr. =5.5	Other Hotels, Banks, ATMs, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Gym, Dharamshala, Raray, Covered Parking, Coaching Centre, Industries etc. = 5	Shops, Schools, Colleges, Educational Institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Open Parking =4	Godowns, Dhabas, Stall and Other types of Properties not covered under (A to D) = 3

(ii) Residential = 2

27. Method of calculation of rateable value and rate of property tax on the net rateable value of the lands and buildings shall be as under:—

A-Zone	B-Zone
For residential properties = 8.5%	For residential properties = 8.5%
For non- residential / Commercial properties = 8.5%	For non-residential Commercial properties = 8.5 %
For land properties -Nil	For land properties-Nil

27 –A Mobile tower – fixed = 8000/-

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same within a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Sections 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Executive Officer, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-Laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council Jawalamukhi.

Municipal Council Jawalamukhi TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST FORM –A (See Bye-Laws 4) UPN-No. _____ I.D. No. _____ ZONE _____				
Unit	Area	Net Ratable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

DATE OF ASSESSMENT				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

FORM-B
(See Bye-Laws 10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____ Bill No. _____ Dated _____
 Zone _____ Bill(s) Detail _____

UPN No.	_____
ID No.	_____
Name of Property	_____
Name of Owner/Occupier	_____
Correspondence Address	_____
Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.	

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year _____ Period _____

Sl. No.	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By

Bill Checked By

Assistant Tax Superintendent.

Receipt

UPN No. _____	Bill No. _____ Bill Date _____
ID No. _____	Amount before due date _____
Name of Owner/Occupier _____	Amount after due date _____
	Amount Paid _____
	Receipt No. _____ Dated _____

Cashier, Municipal Council Jawalamukhi

TERMS & CONDITIONS

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 A.M. to 02.00 P.M. on all working days.
2. Cheques should be drawn in favour of Executive Officer, as the case may be, Municipal Council Jawalamukhi.
3. Out stations cheques should include the discount charged in such cheque(s).
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days.

- from the date of posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial year in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
 6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Jawalamukhi Municipality to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
 7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Municipality Jawalamukhi.
 8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
 9. Bill generated be presented while tendering payment.

FORM-C
(See Bye-Laws 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument

To

The Executive Officer,
Municipal Council Jawalamukhi.

I _____ s/o _____ r/o _____
_____ hereby give notice
as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Description of Property

Name & address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob. No. _____

FORM-D
(See Bye-Laws 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Executive Officer,
Municipal Council Jawalamukhi

I _____ s/o _____
r/o _____ hereby give notice as
required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of property:—

Description of Property

Name & address of person whose title has been transferred	Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred	Detail of property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob. No. _____

FORM-E

(See Bye-Law 19)

**(Tax liability Form under Section 82 read with Section 86 of the Himachal Pradesh
Municipal Act, 1994)**

To

The Executive Officer,
Municipal Council Jawalamukhi.

Subject.— Filling of return for assessment of properties for Municipal Taxes.

Sir/Madam,

I am submitting the details of property known as _____ I.D. No. _____
Ward No. _____ Zone _____ as under:—

[illegible]

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there from.

Date

Yours faithfully,

(Signature)
Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters

Address

Mob. No.

*Verification of the
Assistant Tax Superintendent.*

*Verification of the
Executive Officer.*

FORM-F
(See Bye-Laws 12)

Municipal Council Jawalamukhi.....

Demand and Collection Register

For the Financial Year _____

UNP No. _____
ID No. _____
Name of Property: _____
Name of Owner/Occupier: _____
Correspondence Address: _____

Unit	Area	Net Ratable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let-Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

General Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Date of issuing Bill	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear Collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council, Jawalamukhi.

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मेहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28-07-2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

शिवानी पुत्री ऊषा देवी, वासी चडतगढ़, उप-तहसील मेहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल चडतगढ़ उपरला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम शिवानी है जबकि उप-महाल चडतगढ़ उपरला के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम शालू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके शालू उपनाम शिवानी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(राजन कुमार,)

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मेहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 04-08-2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

गुलशन पुत्र श्री सोम नाथ, वासी बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल बसदेहड़ा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम गुलशन है जबकि उप-महाल बसदेहड़ा के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम गुरदर्शन कुमार दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके गुरदर्शन कुमार उपनाम गुलशन दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 04-08-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28-07-2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

हरजाप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, वासी मलूकपुर, डा0 बनोली, उप-तहसील मैहतपुर, बसदेहड़ा,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल मलूकपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम हरजाप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह है जबकि उप-महाल मलूकपुर के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम इकवाल सिंह पुत्र श्री करतार चन्द दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके इकवाल सिंह पुत्र श्री करतार चन्द उपनाम हरजाप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि० प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28-07-2022

दावा संख्या नं०...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

गुरचैन सिंह पुत्र श्री तारा सिंह, वासी मलूकपुर, उप-तहसील मैहतपुर, बसदेहड़ा, जिला ऊना (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल मलूकपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम गुरचैन सिंह है जबकि उप-महाल मलूकपुर के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम हरजाप सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके हरजाप सिंह उपनाम गुरचैन सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ

सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब—तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब—तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28—07—2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

सुजाता कपिला पुत्री मूल राज उपनाम मूला राम पुत्र किशन चन्द, वासी गांव सन्तोषगढ़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप—महाल सन्तोषगढ़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम सुजाता कपिला है जबकि उप—महाल सन्तोषगढ़ के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम सोमा देवी दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके सोमा देवी उपनाम सुजाता कपिला दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28—07—2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब—तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28-07-2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

प्यारे लाल पुत्र श्री मुंशी लाल, वासी नगडा, उप-तहसील मैहतपुर, बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल नगडा झिकला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम प्यारे लाल है जबकि उप-महाल नगडा झिकला के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम गुडडू दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके गुडडू उपनाम प्यारे लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री राजन कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 28-07-2022

दावा संख्या नं0...../Naib Teh., Sub. Teh. Mehatpur Basdehra/Cor./2022

हुमिन्द्र कुमार पुत्र श्री गुरदास राम, वासी चडतगढ़, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि0प्र0) महाता चडतगढ़ उपरला, महाल खानपुर।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल चडतगढ़ उपरला, महाल खानपुर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका स्वयं का नाम हुमिन्द्र कुमार है जबकि उप-महाल चडतगढ़ उपरला, खानपुर के राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम हरमिन्दर कुमार दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके हरमिन्दर कुमार उपनाम हुमिन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(राजन कुमार),

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा,
तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०)

(नोटिस जेरे आदेश 5 नियम 20 सी०पी०सी०)

इश्तहार/नोटिस मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

हरमिन्द्र सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शालू पत्नी श्री अमृत सिंह, निवासी गांव व डाकघर बसदेहडा, उप-तहसील मैहतपुर बसदेहडा, जिला ऊना, हि० प्र० द्वारा इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका बेटा हरमिन्द्र सिंह पुत्र अमृत सिंह का जन्म गांव व डाकघर बसदेहडा में दिनांक 18-10-2018 को हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसका नाम जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 28-07-2022 को प्रातः 10.00 बजे

से सायं 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य ना होगा। अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(राजन कुमार),
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सब-तहसील मैहतपुर बसदेहडा,
तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 145/रीडर-1

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 02-08-2022

श्रीमती गुरप्यारी पत्नी स्व0 श्री सरूप चन्द पुत्र सन्तू, गांव भडोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र.—नाम दुरुस्ती श्रीमती गुरप्यारी पत्नी स्व0 श्री सरूप चन्द पुत्र सन्तू, गांव भडोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती गुरप्यारी पत्नी स्व0 श्री सरूप चन्द पुत्र सन्तू, गांव भडोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका व उसकी बेटी का नाम राजस्व अभिलेख भडोलियां खुर्द में उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री सरूप चन्द, सुखवर्शा पुत्री सरूप चन्द दर्ज है जबकि उनके सही नाम गुरप्यारी पत्नी स्व0 श्री सरूप, सुमन देवी पुत्री सरूप है लिहाजा इसे दुरुस्त करके उर्मिला देवी उर्फ गुरप्यारी व सुखवर्शा उर्फ सुमन देवी किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 02-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

व अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14/NT/2022

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 02-08-2022

श्री नानक नाथी सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी घनारी (उप-महाल आर्य नगर), जिला ऊना (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र-नाम दुरुस्ती नानक नाथी सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी घनारी (उप-महाल आर्य नगर), जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी नानक नाथी सिंह पुत्र सोहन सिंह, निवासी घनारी (उप-महाल आर्य नगर), जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका का नाम राजस्व अभिलेख उप-महाल आर्य नगर में नानक, नाथी सिंह दर्ज है जबकि उनका सही नाम नानक नाथी सिंह है लिहाजा इसे दुरुस्त करके नानक नाथी सिंह किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 02-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

व अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

डिस्पैच नं0 : 1157/रीडर-1

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 04-08-2022

श्री कुलदीप चन्द पुत्र राम रक्खा, निवासी सुरजेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र-नाम दुरुस्ती कुलदीप चन्द पुत्र राम रक्खा, निवासी सुरजेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी कुलदीप चन्द पुत्र राम रक्खा, निवासी सुरजेहड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल सुरजेहड़ा में छज्जू राम दर्ज है जबकि उनका सही नाम राम रक्खा है लिहाजा इसे दुरुस्त करके छज्जू राम उर्फ राम रक्खा किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 04-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 04-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

डिस्पैच नं० : 546/रीडर-1

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-08-2022

श्री कुलदीप सिंह दयाल पुत्र संसार चन्द उपनाम संसार सिंह पुत्र हीरा, निवासी धदियाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र-नाम दुरुस्ती कुलदीप सिंह दयाल पुत्र संसार चन्द उपनाम संसार सिंह पुत्र हीरा, निवासी धदियाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह दयाल पुत्र संसार चन्द उपनाम संसार सिंह पुत्र हीरा, निवासी धदियाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल धदियाल में कुलदीप सिंह दर्ज है जबकि उनका सही नाम कुलदीप सिंह दयाल है लिहाजा इसे दुरुस्त करके कुलदीप सिंह दयाल किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 05-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 04-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 16/NT/2022

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 02-08-2022

श्री प्रमोद कुमार पुत्र सतपाल, गांव त्यूडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

...वादी।

बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र-नाम दुरुस्ती श्री प्रमोद कुमार पुत्र सतपाल, गांव त्यूडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री प्रमोद कुमार पुत्र सतपाल, गांव त्यूडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख उप-महाल त्यूडी प्रथम में प्रमोद कुमार दर्ज है जबकि उनका सही नाम प्रमोद कुमार है लिहाजा इसे दुरुस्त करके प्रमोद कुमार किया जाए।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 02-08-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

1. श्री अमित कुमार पुत्र श्री ओंकार चन्द, वासी गांव टकारला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. लक्ष्मी नेगी पुत्री श्री वीर सिंह नेगी, वासी शशी, निवास गांव पडेछी, पगोग, शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने बारे।

श्री अमित कुमार पुत्र श्री ओंकार चन्द, वासी गांव टकारला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती मंजू बाला पुत्री श्री सुरजीत सिंह वासी गांव बिल्ला दा थप्पल, डाकघर राजपुर जसवां, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) में दिनांक 02-02-2021 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।